

# Act

## Chapter 26

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη, Ἐπιτρέπεται σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ  
अग्रिप्पाने और कीओर उस पौलुससे कहा अनुमतिहै तुझे केलिए अपनेआपकी  
[G0067](#) [G1161](#) [G4314](#) [G3588](#) [G3972](#) [G5346](#) [G2010](#) [G4771](#) [G5228](#) [G4572](#)

λέγειν. τότε ὁ Παῦλος, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἀπελογεῖτο:  
बोलने। तब वह पौलुसने बढ़ाकर उस हाथको प्रतिवादकिया:  
[G3004](#) [G5119](#) [G3588](#) [G3972](#) [G1614](#) [G3588](#) [G5495](#) [G0626](#)

अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, "तुझे स्वयं अपनी ओर से बोलने की अनुमति है।" इस पर पौलुस ने अपना हाथ उठाया और अपने बचाव में बोलना आरम्भ किया,

2 Περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων, βασιλεῦ Ἀγρίππα, ἦγημαι  
केविषयमें सबके जिनका दोषलगायाजाताहूँ द्वारा यहूदियोंके राजा अग्रिप्पा समझताहूँ  
[G4012](#) [G3956](#) [G3739](#) [G1458](#) [G5259](#) [G2453](#) [G0935](#) [G0067](#) [G2233](#)

ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ, μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι.  
अपनेआपको धन्य केसामने तेरे वालाहूँ आज प्रतिवादकरने।  
[G1683](#) [G3107](#) [G1909](#) [G4771](#) [G3195](#) [G4594](#) [G0626](#)

"हे राजा अग्रिप्पा! मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि यहूदियों ने मुझ पर जो आरोप लगाये हैं, उन सब बातों के बचाव में, मैं तेरे सामने बोलने जा रहा हूँ।

3 μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ Ἰουδαίους ἐθῶν, τε καὶ  
विशेषकर जाननेवाला होतेहुए तू सबके उन केअनुसार यहूदियोंके रीतियोंको और और  
[G3122](#) [G1109](#) [G1510](#) [G4771](#) [G3956](#) [G3588](#) [G2596](#) [G2453](#) [G1485](#) [G5037](#) [G2532](#)

ζητημάτων; διὸ δέομαι, μακροθύμως ἀκοῦσαί μου.  
प्रश्नोंको; इसलिए विनतीकरताहूँ धैर्यसे सुनने मुझे।  
[G2213](#) [G1352](#) [G1189](#) [G3116](#) [G0191](#) [G1473](#)

विशेष रूप से यह इसलिये सत्य है कि तुझे सभी यहूदी प्रथाओं और उनके विवादों का ज्ञान है। इसलिये मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि धैर्य के साथ मेरी बात सुनी जाये।

4 Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου, <τὴν> ἐκ νεότητος, τὴν ἀπ' ἀρχῆς  
उस तो तब जीवनको मेरे [उस] से जवानीसे उस से शुरुआतसे  
[G3588](#) [G3303](#) [G3767](#) [G0981](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1537](#) [G3503](#) [G3588](#) [G0575](#) [G0746](#)

γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου, ἔν τε Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες [οἱ]  
हुई में उस जातिमें मेरी में और यरूशलेममें जानतेहैं सब [उन]  
[G1096](#) [G1722](#) [G3588](#) [G1484](#) [G1473](#) [G1722](#) [G5037](#) [G2414](#) [G1492](#) [G3956](#) [G3588](#)

Ἰουδαῖοι,  
यहूदी।  
[G2453](#)

"सभी यहूदी जानते हैं कि प्रारम्भ से ही स्वयं अपने देश में और यरूशलेम में भी बचपन से ही मैंने कैसा जीवन जिया है।

5 προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν  
 पहलेसेजानतेहुए मुझे शुरुसे यदि चाहें गवाहीदेना कि केअनुसार उस  
[G4267](#) [G1473](#) [G0509](#) [G1437](#) [G2309](#) [G3140](#) [G3754](#) [G2596](#) [G3588](#)

ἀκριβεστάτην αἴρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας, ἔζησα Φαρισαῖος.  
 सुनिश्चिततम पंथके उस हमारे धर्मके मैंनेजीया फरीसी।  
[G0196](#) [G0139](#) [G3588](#) [G2251](#) [G2356](#) [G2198](#) [G5330](#)

वे मुझे बहुत समय से जानते हैं और यदि वे चाहें तो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने हमारे धर्म के एक सबसे अधिक कट्टर पंथ के अनुसार एक फरीसी के रूप में जीवन जिया है।

6 καὶ νῦν ἐπ’ ἐλπίδι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας, γενομένης  
 और अब पर आशाकी उस केलिए उन पूर्वजोंको हमारे प्रतिज्ञाकी हुई  
[G2532](#) [G3568](#) [G1909](#) [G1680](#) [G3588](#) [G1519](#) [G3588](#) [G3962](#) [G1473](#) [G1860](#) [G1096](#)

ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, ἔστηκα κρινόμενος,  
 द्वारा उस परमेश्वरकी खड़ाहूँ न्यायकियाजाताहुआ  
[G5259](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2476](#) [G2919](#)

और अब इस विचाराधीन स्थिति में खड़े हुए मुझे उस वचन का ही भरोसा है जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को दिया था।

7 εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ, νύκτα καὶ ἡμέραν,  
 केलिए जिस वह बारहगोत्र हमारी में लगनसे रात और दिन  
[G1519](#) [G3739](#) [G3588](#) [G1429](#) [G1473](#) [G1722](#) [G1616](#) [G3571](#) [G2532](#) [G2250](#)

λατρεῦον, ἐλπίζει καταντῆσαι; περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ Ἰουδαίων,  
 सेवाकरतेहुए आशाकरतीहै पहुँचने; केविषयमें जिस आशाकी दोषलगायाजाताहूँ द्वारा यहूदियोंके  
[G3000](#) [G1679](#) [G2658](#) [G4012](#) [G3739](#) [G1680](#) [G1458](#) [G5259](#) [G2453](#)

βασιλεῦ.  
 राजा।  
[G0935](#)

यह वही वचन है जिसे हमारी बारहों जातियाँ दिन रात तल्लीनता से परमेश्वर की सेवा करते हुए, प्राप्त करने का भरोसा रखती हैं। हे राजन, इसी भरोसे के कारण मुझ पर यहूदियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है।

8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ’ ὑμῶν, εἰ ὁ Θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;  
 क्यों अविश्वासनीय न्यायकियाजाताहै में तुम्हारेद्वारा यदि वह परमेश्वर मृतकोंको जिलाताहै?  
[G5101](#) [G0571](#) [G2919](#) [G3844](#) [G4771](#) [G1487](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3498](#) [G1453](#)

तुम में से किसी को भी यह बात विश्वास के योग्य क्यों नहीं लगती है कि परमेश्वर मरे हुए को जिला देता है।

9 ἐγὼ μὲν οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ ὄνομα Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου,  
 मैंने तो तब सोचा अपनेआपमें केविरुद्ध उस नामके यीशू उस नाजरीके  
[G1473](#) [G3303](#) [G3767](#) [G1380](#) [G1683](#) [G4314](#) [G3588](#) [G3686](#) [G2424](#) [G3588](#) [G3480](#)

δεῖν πολλα ἐναντία πρᾶξι.  
 चाहिए बहुत विरोधमें करना।  
[G1163](#) [G4183](#) [G1727](#) [G4238](#)

“मैं भी सोचा करता था नासरी यीशू के नाम का विरोध करने के लिए जो भी बन पड़े, वह बहुत कुछ करूँ।

- 10 ὁ καὶ ἐποίησα ἐν Ἱεροσολύμοις; καὶ πολλοὺς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ  
 जो भी मैंने किया मैं यरूशलेममें; और बहुतोंको और उन पवित्रोंको मैंने  
[G3739](#) [G2532](#) [G4160](#) [G1722](#) [G2414](#) [G2532](#) [G4183](#) [G5037](#) [G3588](#) [G0040](#) [G1473](#)
- ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα, τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών;  
 में कारागृहोंमें बंदकिया उस से उन महायाजकोंकी अधिकार पाकर;  
[G1722](#) [G5438](#) [G2623](#) [G3588](#) [G3844](#) [G3588](#) [G0749](#) [G1849](#) [G2983](#)
- ἀναιρουμένων τε αὐτῶν, κατήνεγκα ψῆφον.  
 मारेजातेहुए और उनके मतदिया मत।  
[G0337](#) [G5037](#) [G0846](#) [G2702](#) [G5586](#)

और ऐसा ही मैंने यरूशलेम में किया भी। मैंने परमेश्वर के बहुत से भक्तों को जेल में ठूस दिया क्योंकि प्रमुख याजकों से इसके लिये मुझे अधिकार प्राप्त था। और जब उन्हें मारा गया तो मैंने अपना मत उन के विरोध में दिया।

- 11 καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς, πολλάκις τιμωρῶν αὐτούς, ἠνάγκαζον  
 और मैं सब उन आराधनालयोंमें बारबार दंडदेतेहुए उन्हें मजबूरकरताथा  
[G2532](#) [G2596](#) [G3956](#) [G3588](#) [G4864](#) [G4178](#) [G5097](#) [G0846](#) [G0315](#)
- βλασφημεῖν. περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς, ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς  
 निंदाकरने। अत्यंत और उन्मत्तहोकर उनकेविरुद्ध सताताथा तक भी मैं उन  
[G0987](#) [G4057](#) [G5037](#) [G1693](#) [G0846](#) [G1377](#) [G2193](#) [G2532](#) [G1519](#) [G3588](#)
- ἔξω πόλεις,  
 बाहरकी नगरोंमें।  
[G1854](#) [G4172](#)

यहूदी आराधनालयों में मैं उन्हें प्रायः दण्ड दिया करता और परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए उन पर दबाव डालने का यत्न करता रहता। उनके प्रति मेरा क्रोध इतना अधिक था कि उन्हें सताने के लिए मैं बाहर के नगरों तक गया।

- 12 Ἐν οἷς, πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν, μετ' ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς  
 में जिनमें जातेहुए मैं उस दमिश्कको साथ अधिकारके और आदेशके  
[G1722](#) [G3739](#) [G4198](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1154](#) [G3326](#) [G1849](#) [G2532](#) [G2011](#)
- τῆς τῶν ἀρχιερέων,  
 उस उन महायाजकोंके  
[G3588](#) [G3588](#) [G0749](#)

“ऐसी ही एक यात्रा के अवसर पर जब मैं प्रमुख याजकों से अधिकार और आज्ञा पाकर दमिश्क जा रहा था,

- 13 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ, τὴν  
 दिनके बीच में उस रास्तेपर मैंनेदेखा राजा आकाशसे अधिक उस  
[G2250](#) [G3319](#) [G2596](#) [G3588](#) [G3598](#) [G3708](#) [G0935](#) [G3771](#) [G5228](#) [G3588](#)
- λαμπρότητα τοῦ ἡλίου, περιλάμψαν με, φῶς; καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ  
 चमकके उस सूर्यकी चमकतेहुए मुझे प्रकाश; और उनको साथ मेरे  
[G2987](#) [G3588](#) [G2246](#) [G4034](#) [G1473](#) [G5457](#) [G2532](#) [G3588](#) [G4862](#) [G1473](#)
- πορευομένους.  
 चलतेहुए।  
[G4198](#)

तभी दोपहर को जब मैं सभी मार्ग में ही था कि मैंने हे राजन, स्वर्ग से एक प्रकाश उतरते देखा। उसका तेज सूर्य से भी अधिक था। वह मेरे और मेरे साथ के लोगों के चारों ओर कौंध गया।

- 14 πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν, ἤκουσα φωνήν, λέγουσαν  
 सबके और गिरनेपर हमारे पर उस भूमिपर मैंनेसुना आवाज कहतेहुई  
[G3956](#) [G5037](#) [G2667](#) [G1473](#) [G1519](#) [G3588](#) [G1093](#) [G0191](#) [G5456](#) [G3004](#)
- πρὸς με τῆ Ἑβραϊδι διαλέκτῳ, Σαοῦλ, Σαοῦλ, τί με διώκεις? σκληρόν  
 कीओर मुझे उस इब्रानी भाषामें भाषामें शाउल शाउल क्यों मुझे सताताहै? कठिनहै  
[G4314](#) [G1473](#) [G3588](#) [G1446](#) [G1258](#) [G4549](#) [G4549](#) [G5101](#) [G1473](#) [G1377](#) [G4642](#)
- σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.  
 तेरेलिए केविरुद्ध पैनेको लातमारना।  
[G4771](#) [G4314](#) [G2759](#) [G2979](#)

हम सब धरती पर लुढ़क गये। फिर मुझे एक वाणी सुनाई दी। वह इब्रानी भाषा में मुझसे कह रही थी, 'हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? पैने की नोक पर लात मारना तेरे बस की बात नहीं है।'

- 15 ἐγὼ δὲ εἶπα, Τίς εἶ, Κύριε? ὁ δὲ Κύριος εἶπεν, Ἐγὼ εἶμι  
 मैंने और कहा कौनहै तू प्रभु? उसने और प्रभुने कहा मैं हूँ  
[G1473](#) [G1161](#) [G3004](#) [G5101](#) [G1510](#) [G2962](#) [G3588](#) [G1161](#) [G2962](#) [G3004](#) [G1473](#) [G1510](#)
- Ἰησοῦς, ὃν σὺ διώκεις.  
 यीशू जिसे तू सताताहै।  
[G2424](#) [G3739](#) [G4771](#) [G1377](#)

"फिर मैंने पूछा, 'हे प्रभु, तू कौन है?' "प्रभु ने उत्तर दिया, 'मैं यीशु हूँ जिसे तु यातनाएँ दे रहा है।'

- 16 ἀλλὰ ἀνάστηθι, καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου; εἰς τοῦτο γὰρ, ὥφθην  
 परंतु उठ और खड़ाहो पर अपने पैरोंपर; केलिए में इस क्योंकि मैंनेदर्शनदिया  
[G0235](#) [G0450](#) [G2532](#) [G2476](#) [G1909](#) [G3588](#) [G4228](#) [G4771](#) [G1519](#) [G3778](#) [G1063](#) [G3708](#)
- σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην, καὶ μάρτυρα, ὧν τε εἶδός με, ὧν  
 तुझे नियुक्तकरने तुझे सेवक और गवाह जिनका और तूनेदेखा मुझे जिनका  
[G4771](#) [G4400](#) [G4771](#) [G5257](#) [G2532](#) [G3144](#) [G3739](#) [G5037](#) [G3708](#) [G1473](#) [G3739](#)
- τε ὀφθήσομαί σοι,  
 और मैंदर्शनदूंगा तुझे  
[G5037](#) [G3708](#) [G4771](#)

किन्तु अब तू उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो जा। मैं तेरे सामने इसीलिए प्रकट हुआ हूँ कि तुझे एक सेवक के रूप में नियुक्त करूँ और जो कुछ तूने मेरे विषय में देखा है और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊँगा, उसका तू साक्षी रहे।

- 17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ  
 छड़ातेहुए तुझे से उस लोगोंसे और से उन जातियोंसे में जिनकेपास मैं  
[G1807](#) [G4771](#) [G1537](#) [G3588](#) [G2992](#) [G2532](#) [G1537](#) [G3588](#) [G1484](#) [G1519](#) [G3739](#) [G1473](#)
- ἀποστέλλω σε,  
 भेजताहूँ तुझे  
[G0649](#) [G4771](#)

मैं जिन यहूदियों और विधर्मियों के पास

- 18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμούς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκοτούς εἰς φῶς, καὶ  
 खोलने आँखोंको उनकी उसका फिरने से अंधेरेसे में प्रकाशमें और  
[G0455](#) [G3788](#) [G0846](#) [G3588](#) [G1994](#) [G0575](#) [G4655](#) [G1519](#) [G5457](#) [G2532](#)
- τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοῦς ἄφεσιν  
 उस अधिकारसे उस शैतानकी पर उस परमेश्वरकी उसका पाने उन्हें क्षमा  
[G3588](#) [G1849](#) [G3588](#) [G4567](#) [G1909](#) [G3588](#) [G2316](#) [G3588](#) [G2983](#) [G0846](#) [G0859](#)
- ἀμαρτιῶν, καὶ κληῖρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῆ εἰς ἐμέ.  
 पापोंकी और विरासत में उन उन पवित्रकिए गए विश्वाससे उस में मुझपर।  
[G0266](#) [G2532](#) [G2819](#) [G1722](#) [G3588](#) [G0037](#) [G4102](#) [G3588](#) [G1519](#) [G1473](#)

उनकी आँखें खोलने, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लाने और शैतान की ताकत से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिये, तुझे भेज रहा हूँ, उनसे तेरी रक्षा करता रहूँगा। इससे वे पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे और उन लोगों के बीच स्थान पायेंगे जो मुझ में विश्वास के कारण पवित्र हुए हैं।”

- 19 “Ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθῆς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ;  
इसलिए राजा अग्रिप्पा नहीं मैंहुआ अनाज्ञाकारी उस स्वर्गीय दर्शनके;  
[G3606](#) [G0935](#) [G0067](#) [G3756](#) [G1096](#) [G0545](#) [G3588](#) [G3770](#) [G3701](#)

“हे राजन अग्रिप्पा, इसीलिये तभी से उस दर्शन की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न करते हुए

- 20 ἀλλὰ τοῖς ἐν Δαμασκῶ πρώτον, τε καὶ Ἱεροσολύμοις πᾶσάν, τε τὴν  
परंतु उनको में दमिश्कमें पहले और और यरूशलेममें सबमें और उस  
[G0235](#) [G3588](#) [G1722](#) [G1154](#) [G4412](#) [G5037](#) [G2532](#) [G2414](#) [G3956](#) [G5037](#) [G3588](#)  
χώραν τῆς Ἰουδαίας, καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν  
देशमें उस यहुदियाके और उन जातियोंको सुनाया मनफिराने और फिरने  
[G5561](#) [G3588](#) [G2449](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1484](#) [G0518](#) [G3340](#) [G2532](#) [G1994](#)  
ἐπὶ τὸν Θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα παράσσοντας.  
पर उस परमेश्वरकीओर योग्य उस मनफिरावके काम करतेहुए।  
[G1909](#) [G3588](#) [G2316](#) [G0514](#) [G3588](#) [G3341](#) [G2041](#) [G4238](#)

बल्कि उसके विपरीत मैं पहले उन्हें दमिश्क में, फिर यरूशलेम में और यहूदिया के समूचे क्षेत्र में और गैर यहूदियों को भी उपदेश देता रहा कि मनफिराव के, परमेश्वर की ओर मुड़े और मनफिराव के योग्य काम करें।

- 21 Ἔνεκα τούτων, με Ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι, [ὄντα] ἐν τῷ ἱερῷ, ἐπειρῶντο  
केकारण इनके मुझे यहूदियोंने पकड़कर [होतेहुए] में उस मंदिरमें प्रयासकरतेथे  
[G1752](#) [G3778](#) [G1473](#) [G2453](#) [G4815](#) [G1510](#) [G1722](#) [G3588](#) [G2411](#) [G3987](#)

διαχειρίσασθαι.

मारडालने।

[G1315](#)

“इसी कारण जब मैं यहाँ मन्दिर में था, यहूदियों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी हत्या का यत्न किया।

- 22 ἐπικουρίας οὖν τυχῶν τῆς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης,  
सहायता तो पाकर उस से उस परमेश्वरसे तक उस दिनके इस  
[G1947](#) [G3767](#) [G5177](#) [G3588](#) [G0575](#) [G3588](#) [G2316](#) [G0891](#) [G3588](#) [G2250](#) [G3778](#)  
ἔστηκα, μαρτυρούμενος μικρῶ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων, ὧν τε  
खड़ाहूँ गवाहीदेतेहुए छोटेको और और बड़ेको, कुछनहीं अलग कहतेहुए जो और  
[G2476](#) [G3143](#) [G3398](#) [G5037](#) [G2532](#) [G3173](#) [G3762](#) [G1622](#) [G3004](#) [G3739](#) [G5037](#)  
οἱ προφήται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι, καὶ Μωϋσῆς:  
उन भविष्यवक्ताओंने बोले वाली होने और मूसाने:  
[G3588](#) [G4396](#) [G2980](#) [G3195](#) [G1096](#) [G2532](#) [G3475](#)

किन्तु आज तक मुझे परमेश्वर की सहायता मिलती रही है और इसीलिए मैं यहाँ छोटे और बड़े सभी लोगों के सामने साक्षी देता खड़ा हूँ। मैं बस उन बातों को छोड़ कर और कुछ नहीं कहता जो नबियों और मूसा के अनुसार घटनी ही थीं

- 23 εἰ παθητὸς ὁ Χριστός; εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν, φῶς  
यदि दुखभोगी वह मसीह; यदि पहला से पुनरुत्थानकी मृतकोंकी प्रकाश  
[G1487](#) [G3805](#) [G3588](#) [G5547](#) [G1487](#) [G4413](#) [G1537](#) [G0386](#) [G3498](#) [G5457](#)  
μέλλει καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ, καὶ τοῖς ἔθνεσιν.  
वालाहै घोषणाकरने उस और लोगोंको और उन जातियोंको।  
[G3195](#) [G2605](#) [G3588](#) [G5037](#) [G2992](#) [G2532](#) [G3588](#) [G1484](#)

कि मसीह को यातनाएँ भोगनी होंगी और वही मरे हुआँ में से पहला जी उठने वाला होगा और वह यहूदियों और गैर यहूदियों को ज्योति का सन्देश देगा।”

24 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου, ὁ Φῆστος μεγάλη τῆ φωνῆ φησιν,  
 ये और उसके प्रतिवादकरतेहुए वह फेस्तुसने बड़ी उस आवाजसे कहा  
[G3778](#) [G1161](#) [G0846](#) [G0626](#) [G3588](#) [G5347](#) [G3173](#) [G3588](#) [G5456](#) [G5346](#)

Μαίνη, Παῦλε! τὰ πολλά σε γράμματα, εἰς μανίαν περιτρέπει!  
 पागलहै पौलुस! वह बहुत तुझे पढ़ाई में पागलपनमें बदलतीहै!  
[G3105](#) [G3972](#) [G3588](#) [G4183](#) [G4771](#) [G1121](#) [G1519](#) [G3130](#) [G4062](#)

| वह अपने बचाव में जब इन बातों को कह ही रहा था कि फेस्तुस ने चिल्ला कर कहा, “पौलुस, तेरा दिमागखराब हो गया है! तेरी अधिक पढ़ाई तुझे पागल बनाये डाल रही है!”

25 ὁ δὲ Παῦλος, Οὐ μαινομαι, φησίν, κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ  
 वह और पौलुसने नहीं पागलहूँ कहा महामहिम फेस्तुस परंतु सत्यकी और  
[G3588](#) [G1161](#) [G3972](#) [G3756](#) [G3105](#) [G5346](#) [G2903](#) [G5347](#) [G0235](#) [G0225](#) [G2532](#)

σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι.  
 समझदारीकी वचन बोलताहूँ।  
[G4997](#) [G4487](#) [G0669](#)

| पौलुस ने कहा, “हे परमगुणी फेस्तुस, मैं पागल नहीं हूँ बल्कि जो बातें मैं कह रहा हूँ, वे सत्य हैं और संगत भी।

26 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος  
 जानताहै क्योंकि केविषयमें इनके वह राजा कीओर जिससे भी निडरतासे  
[G1987](#) [G1063](#) [G4012](#) [G3778](#) [G3588](#) [G0935](#) [G4314](#) [G3739](#) [G2532](#) [G3955](#)

λαλῶ. λανθάνειν γὰρ αὐτὸν [τι] τούτων οὐ. παίθομαι οὐθέν οὐ γάρ  
 बोलताहूँ। छिपाहै क्योंकि उससे [कुछ] इनमेंसे नहीं। विश्वासकरताहूँ कुछनहीं नहीं क्योंकि  
[G2980](#) [G2990](#) [G1063](#) [G0846](#) [G5100](#) [G3778](#) [G3756](#) [G3982](#) [G3762](#) [G3756](#) [G1063](#)

ἐστὶν ἐν γωνία πεπραγμένον, τοῦτο.  
 है में कोनेमें कियाहुआ यह।  
[G1510](#) [G1722](#) [G1137](#) [G4238](#) [G3778](#)

| स्वयं राजा इन बातों को जानता है और मैं मुक्त भाव से उससे कह सकता हूँ। मेरा निश्चय है कि इनमें से कोई भी बात उसकी आँखों से ओझल नहीं है। मैं ऐसा इसलिये कह रहा हूँ कि यह बात किसी कोने में नहीं की गयी।

27 πιστεύεις, βασιλεῦ Ἀγρίππα, τοῖς προφῆταις? οἶδα ὅτι πιστεύεις.  
 विश्वासकरताहै राजा अग्रिप्पा उन भविष्यवक्ताओंपर? जानताहूँ कि विश्वासकरताहै।  
[G4100](#) [G0935](#) [G0067](#) [G3588](#) [G4396](#) [G1492](#) [G3754](#) [G4100](#)

| हे राजन अग्रिप्पा! नबियों ने जो लिखा है, क्या तू उसमें विश्वास रखता है? मैं जानता हूँ कि तेरा विश्वास है।”

28 ὁ δὲ Ἀγρίππας πρὸς τὸν Παῦλον, Ἐν ὀλίγω με παίθεις Χριστιανὸν  
 वह और अग्रिप्पाने कीओर उस पौलुससे में थोड़ेमें मुझे मनाताहै मसीही  
[G3588](#) [G1161](#) [G0067](#) [G4314](#) [G3588](#) [G3972](#) [G1722](#) [G3641](#) [G1473](#) [G3982](#) [G5546](#)

ποιῆσαι?  
 बनाने?  
[G4160](#)

| इस पर अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, “क्या तू यह सोचता है कि इतनी सरलता से तू मुझे मसीही बनने को मना लेगा?”

29 ὁ δὲ Παῦλος, Εὐξαίμην ἂν τῷ Θεῷ, καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν  
वह और पौलुसने प्रार्थनाकरूंगा सचमुच उस परमेश्वरसे भी में थोड़ेमें भी में  
[G3588](#) [G1161](#) [G3972](#) [G2172](#) [G0302](#) [G3588](#) [G2316](#) [G2532](#) [G1722](#) [G3641](#) [G2532](#) [G1722](#)

μεγάλῳ, οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντα τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον,  
बहुतमें नहीं केवल तू परंतु भी सब उन सुननेवाले मुझे आज  
[G3173](#) [G3756](#) [G3440](#) [G4771](#) [G0235](#) [G2532](#) [G3956](#) [G3588](#) [G0191](#) [G1473](#) [G4594](#)

γενέσθαι τοιούτους ὅποῖος καὶ ἐγὼ εἶμι -- παρεκτός τῶν δεσμῶν τούτων.  
होजाएँ ऐसे जैसे भी मैं हूँ-- अलग उन बंधनोंके इनके।  
[G1096](#) [G5108](#) [G3697](#) [G2532](#) [G1473](#) [G1510](#) [G3924](#) [G3588](#) [G1199](#) [G3778](#)

| पौलुस ने उत्तर दिया, “थोड़े समय में, चाहे अधिक समय में, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि न केवल तू बल्कि वे सब भी, जो आज मुझे सुन रहे हैं, वैसे ही हो जायें, जैसा मैं हूँ, सिवाय इन जंजीरों के।”

30 Ἄνεστη τε ὁ βασιλεὺς, καὶ ὁ ἡγεμῶν, ἧ τε Βερνίκη, καὶ οἱ  
उठा और वह राजा और वह राज्यपाल वह और बरनीके और उन  
[G0450](#) [G5037](#) [G3588](#) [G0935](#) [G2532](#) [G3588](#) [G2232](#) [G3588](#) [G5037](#) [G0959](#) [G2532](#) [G3588](#)

συνκαθήμενοι αὐτοῖς,  
साथबैठेहुए उनकेसाथ।  
[G4775](#) [G0846](#)

| फिर राजा खड़ा हो गया और उसके साथ ही राज्यपाल, बिरनिके और साथ में बैठे हुए लोग भी उठ खड़े हुए।

31 καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι, Οὐδὲν θανάτου,  
और अलगहटकर बोलतेथे कीओर एकदूसरेके कहतेहुए कि कुछनहीं मृत्युका  
[G2532](#) [G0402](#) [G2980](#) [G4314](#) [G0240](#) [G3004](#) [G3754](#) [G3762](#) [G2288](#)

ἧ δεσμῶν ἄξιον <τι>, πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὗτος.  
या बंधनोंके योग्य [कुछ] करताहै वह मनुष्य यह।  
[G2228](#) [G1199](#) [G0514](#) [G5100](#) [G4238](#) [G3588](#) [G0444](#) [G3778](#)

| वहाँ से बाहर निकल कर वे आपस में बात करते हुए कहने लगे, इस व्यक्ति ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, जिससे इसे मृत्युदण्ड या कारावास मिल सके।

32 Ἀγρίππας δὲ τῷ Φήστῳ ἔφη, Ἀπολεύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὗτος,  
अग्रिप्पाने और उस फेस्तुससे कहा छोड़ाजासकताथा सकताथा वह मनुष्य यह  
[G0067](#) [G1161](#) [G3588](#) [G5347](#) [G5346](#) [G0630](#) [G1410](#) [G3588](#) [G0444](#) [G3778](#)

εἰ μὴ ἐπεκέκλητο Καίσαρα.  
यदि नहीं दुहाईदीथी कैसरकी।  
[G1487](#) [G3361](#) [G1941](#) [G2541](#)

| अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, “यदि इसने कैसर के सामने पुनर्विचार की प्रार्थना न की होती, तो इस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता था।”